


B.A Part-1 Paper-1 (General Psychology)

Dr. Prabha Shree (Guest Faculty, Deptt of Psychology, Vaishali
Mahila College, Hajipur)

Characteristics of Creative Thinker



Characteristics of Creative Thinker

- सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप काफी जटिल होता है इसमें व्यक्ति किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर भिन्न-भिन्न दिशाओं में चिंतन कर कुछ नए विचारों एवं तथ्यों की रचना या सर्जन करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों के आधार पर सर्जनात्मक व्यक्तियों के कुछ गुणों का निर्धारण किया है। इसमें से कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं-

प्रमुख गुण:-

1. बुद्धि (Intelligence)
2. स्वतंत्रता (Independence)
3. हास्य भाव (Sense of humor)
4. नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि (Interest in novelty and complexity)
5. स्वग्रही तथा प्रबल (Self-assistant and dominance)
6. दमन का कम-से-कम प्रयोग (Least use of dominance)

सर्जनात्मक विचारक के गुणों का संक्षिप्त वर्णन:-

बुद्धि:- सर्जनात्मकता का बुद्धि के साथ गहरा संबंध है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह दिखलाया है कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति में सृजनात्मक चिंतन नहीं के बराबर होता है परंतु उसका मतलब यह नहीं है कि सभी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में सृजनात्मकता हो ही। 110 से 120 की बुद्धि लब्धि तक सृजनात्मकता तथा बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर तक बुद्धि बढ़ने से सर्जनात्मकता भी बढ़ती है परंतु इससे ऊपर जाने पर जैसे बुद्धि लब्धि का स्तर 140 या इससे भी ऊपर होने पर व्यक्ति में सर्जनात्मकता नहीं के बराबर होते देखा गया है।

Conti...

- स्वतंत्रता:- सर्जनात्मक विचारक के विचार तथा क्रियाओं में स्वतंत्रता देखी जाती है ऐसे व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनके विचार या उनके द्वारा की जा रही क्रियाएं अन्य व्यक्तियों के विचार या क्रियाओं से मिलती जुलती है या नहीं।
- हास्य भाव;- सर्जनात्मक विचारक की एक विशेषता यह भी पायी गयी है कि वे किसी घटना, चीज या वस्तु को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं बल्कि उसकी व्याख्या हास्यकार ढंग से करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में मनोविनोद एवं हास्य का अंदाज तीव्र होता है परंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में इस तरह का भाव कम होता है, ऐसा अध्ययनों में पाया गया है।

Conti...

- नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि:- सर्जनात्मक विचारक हमेशा किसी नवीन जटिल समस्या के समाधान में अधिक अभिरुचि दिखलाते हैं। ऐसे लोगों को किसी रूढ़िवादी समाधान में आनंद नहीं आता है वह हमेशा यह कोशिश करते हैं कि अपने चिंतन के आधार पर किसी नयी चीज या घटना की खोज करें।
- स्वग्रही तथा प्रबल:- सर्जनात्मक विचारक काफी स्वग्रही होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुलकर करते हैं तथा काफी जोरदार शब्दों में उसके लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे तनिक भी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनके इस विचार का लोग हंसी भी उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं इनमें प्रबलता का गुण होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने विचारों एवं व्यवहारों का प्रभुत्व दूसरों पर दिखलाते हैं क्योंकि इनकी तार्किक क्षमता अधिक विकसित होती है।

Conti...

- दमन का कम से कम प्रयोग:- जिन लोगों में सृजनात्मक चिंतन की क्षमता अधिक होती है वह लोग अपनी इच्छाओं को दमन द्वारा कम से कम नियंत्रित करते पाए गए हैं। Baron (1961) ने अपने अध्ययन में पाया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इच्छा एवं आवेगों का नियंत्रण इस दमन प्रक्रिया द्वारा अधिक करते हैं जबकि अधिक सृजनात्मक क्षमता वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं।

